

19 फ़रवरी 2021

गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक की परिषदीय समिति की अर्धवार्षिक बैठक आज ब्लड बैंक परिसर में हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बिस्तार से बताया की आप सदस्यों के सुझाव से ब्लड बैंक सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, तथा प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। ब्लड बैंक द्वारा पिछले वर्ष 25 रक्तदान शिविरो का आयोजन किया गया जिसमें स्वरक्तदाताओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त ब्लड बैंक में भी लगभग महीने में 25 से 30 स्वरक्तदाताओं ने रक्त दान किया। ब्लड द्वारा आवश्यक मंद रोगियों जैसे किडनी, कैंसर, थैलेसिमिया इत्यादि रोगों से जूझ रहे मरीजों को महीने में लगभग 500 यूनिट रक्त एव रक्त अवयव बिना रक्त दाता के आपूर्ति की जाती है।

करोना कालखंड में जहां सभी सेवाएं प्रभावित हुईं वहां स्वास्थ्य सेवाएं भी अछूती नहीं रही और ब्लड बैंक भी प्रभावित रहे, परंतु नाथ जी की कृपा, महाराज जी का आशीर्वाद एव प्रेरणा से यह ब्लड बैंक उतना प्रभावित नहीं हुआ।

राज्य रक्त संचरण बिभाग लखनऊ ने एक पत्रिका (फार्म) बनायी है जिसे प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों को भेज कर उनसे सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य किया जायेगा, इसमें सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रदेश के कुछ चुनिंदा ब्लड बैंकों का चयन हुआ जिसमें यह ब्लड बैंक सम्मिलित है।

पिछले दिनों 12 फ़रवरी को रक्षा मंत्रालय भारत सरकार नयी दिल्ली से हमारे ब्लड बैंक को सतर्क एव सचेत रहने का निर्देश मिला की रक्षा बिभाग से सम्बंधित कुछ गतिबिधिया इस क्षेत्र से होते हुए आगे जायेगी, जिसके लिए इस ब्लड बैंक का चयन किया गया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है।

इस बैठक में चिकित्सालय के निदेशक में.ज.डॉ अतुल वाजपेयी, अपर निदेशक डॉ कामेश्वर सिंह, डॉ सी.एम.सिन्हा डॉ घनश्याम सिंह डॉ राजीव शाही डॉ दीपक खेतान डॉ ममता जैसवाल डॉ बसुंधरा डॉ देवी प्रसाद डॉ राकेश तिवारी डॉ

आर.पी.पाण्डेय, कॉउंसलर कुमकुम अग्रवाल ,शोभा राय ,अमित मिश्रा राजीव तिवारी इत्यादि उपस्थित थे। स्वल्पाहार के उपरांत कार्यक्रम का समापन अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ सम्पन्न हुआ।

